



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन 1933 (श0)
(सं0 पटना 85) पटना, सोमवार, 19 मार्च 2012

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा

कार्यालय-आदेश
21 जून 2011

सं0 1384—अनुकम्पा समिति की संपन्न बैठक दिनांक 30 जून 2010 में लिए गये निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष अनुकम्पा समिति, नवादा का कार्यवाही पत्रांक 250/स्थापना, दिनांक 31. मई 2011 के पर्याप्त अनुसंशा के आलोक में श्री रौशन कुमार, पिता स्व0 रघुनन्दन सिंह, भूतपूर्व आदेशपाल, राजकीय कृत उच्च विद्यालय, पकरिया, नवादा ग्राम-पकरिया, पोस्ट-ओढ़नपुर, जिला-नवादा को वेतनमान 5200-20200 एवं सरकार द्वारा समय-समय पर देय भत्ते के साथ अनुकम्पा के आधार पर राजकीय कृत उच्च विद्यालय, कोनन्दपुर, अंचल-वारिसलीगंज, जिला-नवादा में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति कर पदास्थापित किया जाता है :-

शर्तें :-

01. नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना योगदान प्रभारी प्रधानाध्यापक, +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोनन्दपुर (नवादा) के समक्ष समर्पित करना होगा ।
02. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
03. दहेज नहीं लेने देने संबंधी एक शपथ पत्र जो कार्यपालक दण्डाधिकारी न्यायालय में निष्पादित हो प्रस्तुत करना होगा । शपथ पत्र में यह अंकित करना होगा कि विवाहित होने के स्थिति में पति/पत्नी जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं करेंगे ।
04. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है । नियुक्ति के उपरांत यदि किसी समय भी आपके द्वारा समर्पित शैक्षणिक योग्यता या अन्य प्रमाण पत्रों में कोई धोखाधड़ी या जालसाजी पायी गई तो मात्र कारण पृच्छा मांगकर आपको सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा तथा आपके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा भी दायर किया जाएगा ।
05. योगदान के उपरांत एक वर्ष के अंदर किसी समय आपकी टंकण तथ कम्प्यूटर योग्यता की जाँच की जायेगी, जिसमें क्षमता संतोषप्रद पाये जाने पर ही वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी ।
06. योगदान के समय अपना दो पासपोर्ट साईज फोटो तथा सादी सेवा पुस्तिका की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी ।
07. योगदान के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

08. किसी भी अपराधिक मुकदमा अथवा बाद में संलिप्ता नहीं रही है, इस आशय का एक शपथ पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी के कार्यालय में निष्पादित हो देना होगा ।
09. आपके चरित्र का सत्यापन आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कराया जायेगा । अगर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तो आपकी नियुक्ति रद्द करते हुए नियम संगत कार्यवाई की जायेगी ।
10. नियुक्ति के उपरांत आप पर बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2005 लागू होगी ।
11. योगदान के समय सभी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा ।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा ।

पत्रांक/ दिनांक	नाम एवं पिता का नाम	ग्राम-पोस्ट- थाना	जिला	जति	शैक्षणिक योग्यता	जन्म तिथि	योगदान की तिथि	वेतनमान	अभ्युक्ति
1384 / 21.06.11	रौशन कुमार पिता स्व0 रघुनन्दन सिंह	ग्राम- पकरिया पोस्ट- ओढ़नपुर थाना- मुफरिसल	नवादा	कहार (चंद्रवंशी)	इण्टरमिडिएट	10.11.1984	19.07.2011	5200 – 20200	

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना (नवादा) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 85-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>